

20.12.2021

रिक्ति नोट

डॉ रोहित भाटिया के तहत आईसीएमआर द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान परियोजना, "इम्पेक्टस्ट्रोक: भारत में मेडिकल कॉलेजों में समान स्ट्रोक देखभाल और परिणामों के लिए एक मूल्यांकन और उपचार पैकेज का कार्यान्वयन। परियोजना कोड डीएचआर-1326 के साथ एक कार्यान्वयन अनुसंधान अध्ययन" "trialneuro@gmail.com" पर नवीनतम 17.00 घंटे 25.12.2021 सितंबर 2021 तक ईमेल करें। योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तिथि और स्थान के बारे में मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

पद का नाम	योग्यता	अनुभव	आयु सीमा	अवधि	वेतन
वैज्ञानिक बी (गैर-चिकित्सा) (1)	<p>i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीवन विज्ञान में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तंत्रिका विज्ञान में पीएचडी के साथ द्वितीय श्रेणी मास्टर डिग्री या (iii) बीवीएससी/बी.टेक डिग्री</p> <p><u>वांछित</u></p> <ul style="list-style-type: none"> गुणात्मक अनुसंधान का पूर्व अनुभव, विशेष रूप से फोकस ग्रुप डिस्कशन। बहु केंद्रित परियोजना में काम करने का पूर्व अनुभव। नैदानिक अनुसंधान आधारित परियोजना में काम करने का पूर्व अनुभव। सहयोगी साइटों की यात्रा करने के इच्छुक हैं 	<p>(i) संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव</p> <p>(ii) नौलो</p> <p>(iii) एक वर्ष का अनुभव</p>	35 साल	2 साल	59520/-

डॉ. रोहित भाटिया / Dr. ROHIT BHATIA
आचार्य / Professor
तंत्रिका विज्ञान विभाग / Dept. of Neurology
तंत्रिका विज्ञान केंद्र / Neuro Science Centre
आई.आई.टी. नई दिल्ली / IITM, New Delhi-29

